



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 फाल्गुन 1945 (श10)
(सं0 पटना 280) पटना, सोमवार, 18 मार्च 2024

सं0 4/स्था0मु0-10-55/2010 गृ0आ0-3160
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक 15 मार्च 2024

विषय :- बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में पूर्व से सृजित 9 प्रशाखाओं के अतिरिक्त 3 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश सं0-2759 दिनांक-28.02.2019 के आलोक में स्वीकृत।

2. राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.02.2019 की बैठक के मद सं0-33 में स्वीकृति के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0-2759 दिनांक-28.02.2019 की अनुसूची-‘क’ के क्रमांक-5 (ग) में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के लिए प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत पद की संख्या को पुनर्गठन के फलस्वरूप 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।

3. प्रशाखा पदाधिकारी के 3 अतिरिक्त पदों के सृजन के आलोक में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के लिए पूर्व से सृजित 9 प्रशाखाओं के अतिरिक्त 3 नए प्रशाखा यथा प्रशाखा-10,11 एवं 12 सृजित किया जाता है।

4. नव सृजित 3 प्रशाखाओं में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदों पर पदस्थापित किए जाने वाले कार्यबल पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष "2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0006-गृह (आरक्षी) विभाग विपत्र कोड-22-205200090006" के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

आदेश से,
प्रकाश रंजन,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 280-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>